



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

11/10/02

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20, 2001 (आश्विन 28, 1923)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 2001 (ASVINA 28, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued
by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
सरकारी और बैंक लेखा विभाग
मुंबई, दिनांक 14 सितम्बर 2001

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं. एफ (8) 70/बी 5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथासंशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण में अगस्त 2001 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें।

सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग “क” में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग “ख” में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है:--

सूची “क”

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

भायखला, मुंबई सर्किल
10 प्रतिशत राहत बांड, 1995

बीसी-145 (जीपीएम)	रु. 6,25,000/-	मनीलाल लल्लूभाई दलाल रजनीकांत रामदास दलाल	23.5.96	मनीलाल लल्लूभाई दलाल रजनीकांत रामदास दलाल	दिनांक 4.5.2001 का आदेश सं. 06.25.49
----------------------	----------------	--	---------	--	---

नई दिल्ली सर्किल
9 प्रतिशत राहत पत्र, 1999

डीएच-000582 जीपी (सी)	रु. 30,000/-	रमेश चंद्र गुप्ता एवं प्रतिभा गुप्ता	संचयी	रमेश चंद्र गुप्ता एवं प्रतिभा गुप्ता	पीडीओ/डीटी/एलएन. 3/2000 दिनांक 19.7.01
डीएच-000697 जीपी (सी)	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

सूची “ख”

प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य	जिस व्यक्ति के नाम जारी किया	बकाया ब्याज की तिथि	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	प्रतिलिपि आदेश तिथि तथा संख्या
1	2	3	4	5	6

भायखला, मुंबई सर्किल
9 प्रतिशत राहत बांड, 1993

बीसी-561 (जीपीएच)	रु. 50,000/-	लीला भोजराज वझीरानी	2.3.94	लीला भोजराज वझीरानी	दिनांक 1.12.2000 का आदेश सं. 06.25.41
----------------------	--------------	---------------------	--------	---------------------	--

10 प्रतिशत राहत बांड, 1995

बीसी-4073 (जीपीएच)	रु. 10,00,000/-	शहनाज बेगम व खुरशेद अकबर अंसारी	25.7.96	शहनाज बेगम व खुरशेद अकबर अंसारी	दिनांक 29 जून 98 का आदेश सं. 06.25.24
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---------	------------------------------------	--

एस. एस. मैजरकर
कृते मुख्य महा प्रबंधक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 25 सितंबर 2001

सं. केका/कार्मिक/औसनि/2001-02--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित अधिनियम जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा अधिनियम, 1979 के नाम से जाना जाता है, एतद्वारा बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:—इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम, 38 में द्वितीय परंतुक के पश्चात् नामतः निम्न परंतुक शामिल किया जाएगा।
“बशर्ते जहां कोई अधिकारी विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत उचित नोटिस देने के पश्चात् 1 अप्रैल, 2001 को अथवा उसके पश्चात् इस्तीफे द्वारा अपनी सेवाएँ छोड़ता अथवा समाप्त करता हो तो उसे, साधिकार अवकाश के संबंध में, उसकी सेवा समाप्ति की तारीख पर उसके खाते में जमा ऐसे अवकाश के आधे तक की सीमा, अधिकतम 120 दिनों के अधीन, के तुल्य परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान किया जाएगा।”

जी पी चिटणीस
सहायक महाप्रबंधक (औसंजी)

नोट : मूल अधिनियमों के संशोधनों को भारत के राजपत्र में निम्न विवरण के अनुसार प्रकाशित किया गया था।

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1	13	27.03.1999

यूनिट योजना, 1964

दिनांक 14 अगस्त, 2001

शुद्धिपत्र

यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-51/2001-2002—भारत के राजपत्र (भाग III—खण्ड 4), दिनांक 21 जुलाई, 2001 में पृष्ठ सं. 4226 से 4231 (हिंदी पाठ) और पृष्ठ सं. 4263 से 4269 (अंग्रेजी पाठ) पर प्रकाशित दिनांक 27 जून, 2001 की हमारी अधिसूचना सं. यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-51/730/2000-2001 को निरस्त समझा जाए।

2. भारत के राजपत्र (भाग III—खण्ड 4), दिनांक 21 जुलाई, 2001 में पृष्ठ सं. 4232 से 4237 (हिंदी पाठ) और पृष्ठ सं. 4270 से 4276 (अंग्रेजी पाठ) पर प्रकाशित हमारी अधिसूचना सं. यूटी/डीबीडीएम/एसपीडी-51/बी 2/2000-2001, दिनांक 27 जून, 2001 की है।

एस के साहा
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुखर्ष

यूटीआई - महिला यूनिट योजना का पेशकश दस्तावेज

दिनांक 16 जून, 2001 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड 4) में प्रकाशित हमारी अधिसूचना संख्या यूटी/डीबीडीएम/आर-76/एसपीडी-68-ए, दिनांक 11 मई, 2001 में निम्नलिखित सुधारें:

शुद्धिपत्र

क्र.सं.	पृष्ठ सं.	मद सं.	सुधार
1	3865	1	3री पंक्ति में शब्द "शुद्ध" को शब्द "शुद्ध" से सुधारें।
2	3865	9	1ली पंक्ति में शब्द "बेचे गए हैं" को शब्द "आरी किए गए हैं" से सुधारें।
3	3865	10	1ली पंक्ति में शब्द "साठ" को शब्द "कम से कम साठ" से सुधारें।
4	3866	4	1ली पंक्ति में शब्द "आवश्यासनों" को शब्द "आवश्यासनों" से सुधारें।
5	3867	6	2री पंक्ति में शब्द "का न्यासी मंडल" को शब्द "के न्यासी मंडल की कार्यकारी समिति" से सुधारें।
6	3867	7(ख)(iv)	1ली पंक्ति में शब्द "केन्द्र सरकार" को शब्द "केन्द्रीय विधि" से सुधारें।
7	3871	17 घ)	1ली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" को शब्द "योजना के सदस्यों" से सुधारें।
8	3871	17 ङ.)	1ली पंक्ति में शब्द "बोर्ड" को शब्द "न्यासी बोर्ड" से सुधारें।
9	3872	17 झ) (ii)	4थी पंक्ति में शब्द "भारत में एनआरआई" को शब्द "एनआरआई" से सुधारें।
10	3872	1)(क)	1ली पंक्ति में शब्द "संग्रहीत" को शब्द "संग्रहीत" से सुधारें।
11	3873	2)(घ)	2री पंक्ति में शब्द "निर्गम पूर्व व्षय एवं वार्षिक" को शब्द "वार्षिक" से सुधारें।
12	3873	3)(ख)	8वीं पंक्ति में शब्द "कमी" को शब्द "कमी, यदि कोई हो" से सुधारें।
13	3875	3	1ली पंक्ति में शब्द "आवेदक" को शब्द "आवेदन" से सुधारें।
14	3876	5(ii)	2री पंक्ति में शब्द "ऐसी राशि का 25% या ऐसी राशि, जिसे यूटीआई निश्चित करे" को शब्द "पुनर्खरीद राशि के 25% के बराबर राशि" से सुधारें।
15	3876	6	1ली पंक्ति में शब्द "सदस्यों द्वारा नामांकन" को शब्द "नामांकन" से सुधारें।
16	3876	VIII	1ली पंक्ति में शब्द "यूनिटों की पुनर्खरीद" को शब्द "पुनर्खरीद" से सुधारें।
17	3879	10	4थी पंक्ति में शब्द "आवश्यकताओं" को शब्द "आवश्यकताओं" से सुधारें।
18	3879	10	4थी पंक्ति में शब्द "अभ्यर्पण" को शब्द "अभ्यर्पण" से सुधारें।
19	3880	5	1ली पंक्ति में शब्द "वितरित आय" को शब्द "आय वितरण" से सुधारें।
20	3880	1 (क)	1ली पंक्ति में शब्द "व" को शब्द "या" से सुधारें।
21	3881	3 (घ) (ii)	2री पंक्ति में शब्द "10%" को शब्द "10% या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी सीमा" से सुधारें।
22	3881	3 (घ) (iii)	1ली पंक्ति में शब्द "अनुमति है।" को शब्द "अनुमति हो, तो" से सुधारें।
23	3883	(ii) (iii)	दोनों तालिकाओं में दिए गए आंकड़े रु. करोड़ में हैं।
24	3883	(iii)	सारणी (iii) में हिंदू लीवर लिमिटेड के सामने निवेश/मीयादी ऋण कॉलम के नीचे दिए गए आंकड़े "0.00" को आंकड़े "0.44" से सुधारें।
25	3883	XII. 2	1ली पंक्ति में शब्द "निवेश" को शब्द "निवेश" से सुधारें।
26	3884	1	1ली पंक्ति में शब्द "संयुक्त" को शब्द "संबद्ध" से सुधारें।
27	3884	2 क	1ली पंक्ति में शब्द "आय या व्यय" को शब्द "आय, यदि कोई हो" से सुधारें।
28	3888	5 (ख)	3री पंक्ति में शब्द "पूँजीकरण किए जाने वाले वर्ष में राजस्व" को शब्द "राजस्व" से सुधारें।
29	3888	6	4थी पंक्ति में शब्द "21 दिनों के" को शब्द "21 दिनों या सेबी द्वारा निर्धारित अवधि" से सुधारें।
30	3888	XVI. 1	1ली पंक्ति में शब्द "उपरोक्त" को शब्द "नीचे दी गई" से सुधारें।
31	3888	XVI. 2	2री पंक्ति में शब्द "अधिनियम" को शब्द "भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 53)" से सुधारें।
32	3889	3 क)	4थी पंक्ति में शब्द "10% अधिभार" को शब्द "अधिभार" से सुधारें।
33	3889	3 क)	8वीं पंक्ति में शब्द "के" को शब्द "को" से सुधारें।
34	3889	XVII. 1	1ली पंक्ति में शब्द "प्लान" को शब्द "योजना" से सुधारें।
35	3889	XVII. 1	1ली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" को शब्द "सदस्यों/आवेदकों" से सुधारें।
36	3889	XVII. 2	1ली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" को शब्द "सदस्यों/आवेदकों" से सुधारें।
37	3889	XVII. 3	1ली पंक्ति में शब्द "सदस्यों" को शब्द "सदस्यों/आवेदकों" से सुधारें।
38	3889	XVII. 3	1ली पंक्ति में शब्द "लेखा विवरणी" को शब्द "लेखा विवरणी/यूनिट प्रमाणपत्र/स्वीकृति सूचना पत्र" से सुधारें।
39	3889	XVII. 6	2री पंक्ति में शब्द "उसे" को शब्द "पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट को" से सुधारें।
40	3890	7	3री पंक्ति में शब्द "निवेशकर्ताओं" को शब्द "आवेदकों/सदस्यों" से सुधारें।
41	3903		सारणी में एमआईपी-99 के संशोधन बिलियन में 31.01 2001 को एनएवी के कॉलम में दिए गए आंकड़े "11015" को आंकड़े "11.15" से सुधारें।

21 3881 38च)(पप) 2री पंक्ति में शब्द "10:" को शब्द "10: या सेबी द्वारा निर्धारित ऐसी किसी सीमा" से सुधारें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 2001

सं. एन-15/13/18/1/95-यो. एवं वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 अक्टूबर, 2001 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा पाण्डिचेरी कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पाण्डिचेरी राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्:--

"विलियानूर सब तालुक में मनादिपेट (थिरुबुवानाई) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम-मनादिपेट, चेट्टीपेट, कुनिचम्पेट, मन्नाडिपेट, वाधानूर, कलिथिरथलकुप्पम, मदागडिपेट, थिरुबुवानाय, सन्यासीकुप्पम, थिरुवान्दरकोइल, सोरापेट, वाम्बुपेट, कोडाथूर, थेथ्याम्पक्कम, सुथुकेनी, पुडुकुप्पम, कट्टेरी, कुप्पम और सेल्लिपेट।"

एन. आर. धिन्वर
निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2001

सं. वी-33(13)3/98-स्था. 4 :--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने (नियोजक प्रतिनिधि) थीरू के. रूद्रप्पासामी के स्थान पर थीरू आर. सुबुराज को (नियोजक प्रतिनिधि) तथा (कर्मचारी प्रतिनिधि) थीरू शंकरन के स्थान पर थीरू दुरई अरुमुगम को (कर्मचारी प्रतिनिधि) नामित किया है।

अतः निगम की अधिसूचना सं. वी-33(15)2/98-स्था. 4 दिनांक 22.1.2001 के क्रम संख्या 8 तथा क्रम संख्या 12 में की गई प्रविष्टियों। के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं:--

क्र. सं.	मौजूदा प्रविष्टि	प्रस्तावित प्रविष्टि
1.	थीरू के. रूद्रप्पासामी (नियोजक प्रतिनिधि) महाप्रबन्धक मैसर्स सुन्दर राजा मिल्स नेडनगडु कराइकला (दिनांक 22.2.2001 की अधिसूचना की क्रम संख्या-8)	थीरू आर. सुबुराज (नियोजक प्रतिनिधि) कार्मिक प्रबन्धक मैसर्स सुन्दर राजा मिल्स नेडनगडु कराइकला
2.	थीरू शंकरन, (कर्मचारी प्रतिनिधि) अध्यक्ष, सी. आई. टी. यू. 238, कामराज सलाइ पांडिचेरी-1 (22.1.2001 की अधिसूचना का क्रम संख्या-12)	थीरू दुरई अरुमुगम (कर्मचारी प्रतिनिधि) जिला सचिव, सी. आई. टी. यू. संख्या-42 कुडैलोर रोड भारती मिल्स थीतु मदलीयारपीठ पांडिचेरी-4

सुमन स्वरूप
महानिदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 24 सितम्बर 2001

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एकजम/89/भाग-II/912--जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शाई गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची-I

क्रम सं.	स्थापना का नाम और पता	कोड नं.	सरकारी अधिसूचना की सं. व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के. भ. नि. आयुक्त की फाईल सं.
1.	मै. डी. सी. एम. श्रीराम कनसोलिडेटेड लि., 5वीं मंजिल, कंचनजंगा, 18-बी. के. रोड, नई दिल्ली-110001	डीएल/ 2294	2/1959/डीएलआई/एकजम/ 89/पोटी दि. 6.4.96	23.6.2000	24.6.2000 से 23.6.2003	3/2/2001/डीएलआई
2.	मै. टाय एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, दरबारीसेठ ब्लॉक, हैबीटेड प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली-3	डीएल/ 6987	-वही- दि. 5.11.98	29.2.2000	1.3.2000 से 28.2.2003	3/3/2001/डीएलआई
3.	मै. होटल ब्रोडवे, 4/15-ए असफ अली रोड, नई दिल्ली-110002	डीएल/ 523	24.3.99	31.3.2000	1.4.2000 से 31.3.2003	3/6/2001/डीएलआई

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी आत के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।
10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के किए गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।
12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

कल्याण चन्द

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION

Mumbai, the 14th September 2001

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended August 2001 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs/Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla, Mumbai Circle 10% Relief Bonds, 1995					
BC-145(GPM)	Rs. 6,25,000/-	Manilal Lallubhai Dalal Rajnikant Ramdas Dalal	23.5.96	Manilal Lallubhai Dalal Rajnikant Ramdas Dalal	06.25.49 dated 4.5.2001
New Delhi Circle 9% Relief Bond 1999					
DH-000582 GP(C)	Rs. 30,000/-	Ramesh Chander Gupta & Pratibha Gupta	Cumulative	Ramesh Chander Gupta & Pratibha Gupta	PDO/DT LN3/2000 dated 19.7.2001
DH-000697 GP(C)	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-

List "B"

No. of Security	Value in Rs/Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
Byculla, Mumbai Circle 9% Relief Bonds 1993					
BC-561 (GPH)	Rs. 50,000/-	Lila Bhojraj Vazirani	8.3.94	Lila Bhojraj Vazirani	06.25.41 dated 1-12-2000
10% Relief Bonds, 1995					
BC-4073 (GPH)	Rs. 10,00,000/-	Shahnaz Begum and Khurshaid Akber Ansari	25.7.96	Shahnaz Begum and Khurshaid Akber Ansari	06.25.24 dated 29.6.98

S. S. MAJARKAR
p. Chief General Manager

CENTRAL BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE,
MUMBAI

Mumbai, the 25th September 2001

No CO:PRS:IRP:2001-2001-02—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 namely :—

1. Short Title and Commencement : (1) These Regulations may be called the Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 in regulation 38 after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely .

"Provided also that where an officer leaves or discontinues his services by resignation on or after the 1st April, 2001, after giving due notice under sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days".

G. P. CHITNIS
Asstt. General Manager (IRP)

Note—The amendments to the Principal regulations were published in the Gazette of India as per details given below:

Sr. No.	Notification No.	Dated
1	13	27.3.1999

CORRIGENDA

Unit Scheme, 1964

The 14th August 2001

UT/DBDM/SPD-51/2001-2002—1. Our Notification No. UT/DBDM/SPD-51/730/2000-2001 dated June 27, 2001 published on page Nos. 4226 to 4231 (Hindi Version) and 4263 to 4269 (English Version) in the Gazette of India (Part III Section 4) dated July 21, 2001 may be treated as cancelled.

2. Our Notification No. UT/DBDM/SPD-51/B 2/2000-2001 published on page Nos. 4232 to 4237 (Hindi Version) and 4270 to 4276 (English version) in the Gazette of India (Part III Section 4) dated July 21, 2001 may be dated June 27, 2001.

S. K. SAHA
Chief General Manager
Business Development & Marketing

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 24th September 2001

No. N-15/13/18/1/95-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st October, 2001 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Pondicherry Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules 1954, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Pondicherry namely:

"Areas comprising the Revenue Villages of Manalipet, Chettypet, Kunitchampet, Mannadipet, Vadhanur, Kalithirthalkuppam, Madagadipet, Thirubuvanai, Sanyasikuppam, Thiruvandarkoil, Sorapet, Vambupet, Kodathur, Thetthampakkam, Suthukeny, Pudukuppam, Kattery, Kuppam & Sellipet in Mannadipet Commune (Thirubuvanai), Villiannur Sub-Taluk".

N. R. DHINWAR
Director (P & D)

New Delhi, the 26th September 2001

No. V-33(13)3/98-E.IV.—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation nominates Thiru R. Subburaj, (Employers' Representative) in place of Thiru K. Rudrappasamy (Employers' Representative) and Thiru Durai Arumugam (Employees' Representative) in place of Thiru Sankara (Employees' Representative).

Now therefore in the Corporation's Notification No. V-33(13)3/98-E.IV. dated 22.1.2001 against entries at S. No. 8 and S. No. 12, the following entries shall be substituted.

<u>Existing Entry</u>	<u>Proposed Entry</u>
1. Thiru K. Rudrappasamy (Employers' Representative) General Manager; M/s. Soundara Raja Mills, Nedungadu, Karaikal (S. No. 8 of the notification dated 22.1.2001)	Thiru R. Subburaj (Employers' Representative) Personnel Manager, M/s. Soundara Raja Mills, Nedungadu, Karaikal
2. Thiru Sankaran (Employees' Representative) President, CITU 238, Kamraj Salai Pondicherry-1 (S. No. 12 of Notification dated 22.1.2001)	Thiru Durai Arumugam (Employees' Representative) District Secretary, CITU No. 42, Cuddalore Road, Bharathi Mill Thittu Madaliarpuram, Pondicherry-4

SUMAN SWARUP
Director General

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110066, the 24th September 2001

[No. 2/1959/DLI/EXEM/89/Pt. I/912—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended	Date of Expiry	Period of exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. D.C.M. Shriram Consolidated Ltd., 5th Floor, Kanchan-Junga, 18, B.K. Road, New Delhi-110001	DL/2294	2/1959/DLI/Exm/ 89/Pt. I /dt. 6.4.96	23.6.2000	24.6.2000 23.6.2003	3/2/2001/CV
2.	M/s. Tata Energy Research Institute, Darbari Seth Block, Habitat Place, Lodhi Road, New Delhi-3	DL/6987	Do.	29.2.2000	1.3.2000 28.2.2003	3/3/2001/CV
3.	M/s. Hotel Broadway, 4/15-A, Asaf Ali Road, New Delhi-110002	DL/523	Do. dt. 24.3.99	31.3.2000	1.4.2000 31.9.2003	3/6/2001/CV

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt., may from time of time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said Scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view

9 Therefore any reason the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respect

KALYAN CHAND

Addl Central Provident Fund Commissioner